



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असोधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३४] नई दिल्ली, रविवार, मार्च ६, १९६६/फाल्गुन १५, १८८७

No. 34] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 6, 1966/PHALGUNA 15, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 1966

**G.S.R. 364.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Defence of India Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Defence of India Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Defence of India (Second Amendment) Rules, 1966.

2. In sub-rule (1) of rule 32 of the Defence of India Rules, 1962,—

(i) in the opening paragraph, the word “either” shall be omitted;

(ii) for the words “that Government may by notified order direct that this rule shall apply to that organisation” occurring at the end, the following shall be substituted, namely:—

“or

(c) that the organisation indulges, or the members thereof or the persons in control thereof indulge, in activities prejudicial to the security of India or of any part of the territory thereof,

that Government may by notified order direct that this rule shall apply to that organisation.”.

[F. 3/5/66-Poll(Spl).]

ASOKA SEN, Jt. Secy.

